

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

09 जुलाई 2019

**लोक सेवा परीक्षाओं की कोचिंग के लिए जामिया आरसीए में आवेदन करने वालों में 80 फीसदी  
का इजाफ़ा**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेज़िडेन्शल कोचिंग एकेडमी :आरसीए: में यूपीएससी सिवल सर्विसेज़-2020 की परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 13129 उम्मीदवारों ने इस साल आवेदन किया है। पिछले साल 7245 छात्रों ने अप्लाई किया था। इसके मुकाबले, इस साल इच्छुक उम्मीदवारों को तादाद 80 फीसदी ज़्यादा है। आरसीए हर साल 150 उम्मीदवारों को कोचिंग के लिए चुनती है।

आरसीए के मानद निदेशक, अवकाशप्राप्त आईएएस, श्री एम ए फ़ारूकी ने कहा कि एकेडमी में कोचिंग लेने वाले उम्मीदवारों की सफलता दर, यहां के अच्छे अकादमिक माहौल और जामिया फैकल्टी तथा गेस्ट टीचर्स से मिलने वाले बेहतरीन समर्थन के मद्देनज़र, यहां कोचिंग पाने की ख्वाहिश रखने वालों में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि साल 2018 की सिवल सेवा परीक्षाओं में, यहां से कोचिंग पाने वाले, ज़ुनैद अहमद तीसरे नंबर के टापर रहे। 2018 में ही आरसीए से कोचिंग पाने वालों में से 43 उम्मीदवार यूपीएससी सिवल सेवा परीक्षाओं में कामयाब हुए थे। इनमें से 29 ने आरसीए में रह कर कोचिंग पाई और 14 अन्य को ओरिएन्टेशन क्लासेज़, एक्सपर्ट लेक्चर और माँक इंटरव्यू के ज़रिए, इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए ट्रेन किया गया था।

जामिया में आरसीए की स्थापना 2010 में हुई थी। उसके बाद से यह आकदमी 200 से ज़्यादा सिवल सर्वेंट बना चुकी है और बाकी 250 छात्र, दीगर केन्द्रीय और प्रांतीय सेवाओं के लिए चुने गए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को लोक सेवाओं की परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी सेवाओं मुहैया कराने के लिए, साल

2010 में आरसीए का गठन किया था। इसमें चुने जाने वाले उम्मीदवारों को अखिल भारतीय स्तर पर लिखित परीक्षाओं और इंटरव्यू की कड़ी प्रक्रिया से गुज़रना होता है।

आरसीए, बहुआयामी कोचिंग और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम पर खास ज़ोर देती है। इसमें प्रिलिम्स, मेन परीक्षाओं और इंटरव्यू आदि की तैयारी के लिए कई दौर के तैयारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके लिए कुल मिलाकर तकरीबन, 500 घंटों की क्लास होती हैं। जाने माने स्कॉल और वरिष्ठ नौकरशाह विशेष लेक्चर देते हैं। ग्रुप डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं और माँक इंटरव्यू आयोजि किए जाते हैं। जामिया की यह आकदमी चैबिसौं घंटे एयर कंडीशन्ड लाइब्रेरी सेवाएं और मुफ्त वाई-फाई मुहैया कराती है। अकादमी के लिए चुने गए छात्रों को हाँस्टल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

**अहमद अज़ीम**

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक